

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23—अगस्त 29, 2014 (भाद्रपद 1, 1936)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23—AUGUST 29, 2014 (BHADRA 1, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2014

सेना शाखा

सं.182, दिनांक 31 जुलाई 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

पिछली तिथि से वरीयता

एस एस-37638के पूर्व लैफ्टीनेन्ट परीक्षित मिश्रा अब टी ए-42876 लैफ्टीनेन्ट परीक्षित मिश्रा को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 28 जून 2013 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर इन्फैन्ट्री (टी ए) में कमीशन प्रदान किया जाता है। नियमित सेना की 05 साल और 82 दिन (दिनांक 06 मार्च 1999 से 28 मई 2004) की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में 06 अप्रैल 2008 से लैफ्टीनेन्ट के पद पर वरीयता प्रदान की जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें दिनांक 28 जून 2013 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया है। उन्हें प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के पैरा 25 (ए) तथा 38 (ए) में निहित प्रावधान (संशोधित

संस्करण 1976), ए वी एस सी समिति प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 18 (1) 2006/डी (जी एस-1) दिनांक 18 दिसम्बर 2006 द्वारा यथा संशोधित, के अन्तर्गत वेतन एवम् पदोन्नति में वार्षिक बढ़ोत्तरी हेतु सैद्धान्तिक वरीयता के साथ दिनांक 06 अप्रैल 2012 से कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया जाता है ।

भारत भूषण जोशी

अवर सचिव

सं.183, दिनांक 31 जुलाई 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां निरस्त करते हैं :-

भारतीय नौसेना

अवैतनिक कमीशन निरस्त करने की कार्योत्तर मंजूरी

निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसर II का 26 जनवरी 2014 से सब लेफ्टिनेंट के रैंक में अवैतनिक कमीशन प्रदान करने की वापसी हेतु एतद्वारा कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है ।

परविन कुमार भार्मा एमसी ईआरए-II 193311डब्ल्यू

पी मुरुगेसन
वाईस एडमिरल,
कार्मिक अध्यक्ष एकीकृत मुख्यालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 184, दिनांक 1 अगस्त 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15600-39100/-(पे बैंड-3) रु. 5400/-ग्रेड पे के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है ।

क्रम संख्या	पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
1.	2013AB1044	श्री विवके भारती	एडीई, बेंगलोर	05.08.2013
2.	2013AB1009	श्री माहित कुमार सिंह	एडीई, बेंगलोर	07.08.2013
3.	2013AB1006	श्री बालामुरलीधरन पी	एडीई, बेंगलोर	05.08.2013
4.	2013AB1005	श्री विनित कुमार रंजन	एडीआरडीई, आगरा	05.08.2013
5.	2013AB1015	श्री जितेश शर्मा	अनुराग, हैदराबाद	05.08.2013
6.	2013AB1039	श्री मिरिनमोय बिसवास	ए एस एल, हैदराबाद	05.08.2013
7.	2013AB1022	श्री प्रसन्ना जैसवाल	कैब्स, बेंगलोर	05.08.2013
8.	2013AB1027	श्री प्रफुल्ल गुप्ता	कैब्स, बेंगलोर	05.08.2013
9.	2013AB1014	सुश्री अनन्या चटर्जी	केयर, बेंगलौर	05.08.2013
10.	2013AB1025	श्री शशांक भूषण	केयर, बेंगलौर	05.08.2013
11.	2013AB1032	श्री वेलात्म परितोष कुमार	सीएचईएसएस, हैदराबाद	05.08.2013
12.	2009AB1527	श्री वेंगादेश डी	सी वी आर डी ई, चेन्नई	01.12.2009
13.	2013AB1031	श्री प्रशांत सिंह	डेयर, बेंगलोर	05.08.2013
14.	2013AB1036	सुश्री प्रियंका सोनागारा	डील, देहरादून	05.08.2013
15.	2013AB1030	सुश्री अदिति शर्मा	डेबेल, बेंगलोर	05.08.2013
16.	2012AB1024	सुश्री सुमन तिगा	डिहार, लेह	15.11.2012

17.	2013AB1023	श्री बी चौधरी	डी एल, जोधपुर	05.08.2013
18.	2013AB1017	सुश्री किरन कुमारी	डी एल आर एल, हैदराबाद	05.08.2013
19.	2012AB1027	श्री शिशिर	डी एम आर एल, हैदराबाद	09.07.2012
20.	2013AB1047	श्री बिपिन केडिया	डी एम आर एल, हैदराबाद	05.08.2013
21.	2009AB1675	श्री जेयासीलन के	डी एल आर एल, हैदराबाद	01.12.2009
22.	2013AB1010	श्री सौरभ कुमार सोनकर	डी एल आर एल, हैदराबाद	05.08.2013
23.	2010AB1009	श्री सिद्धांत दिपक निर्माले	डी एल आर एल, हैदराबाद	15.02.2010
24.	2013AB1011	सुश्री सिंटू रांगपिपि	एचईएमआरएल, पुणे	05.08.2013
25.	2013AB1046	श्री जी वी अरुन कुमार	एचईएमआरएल, पुणे	05.08.2013
26.	2013AB1012	श्री संदीप कुमार	एचईएमआरएल, पुणे	05.08.2013
27.	2013AB1053	श्री हर्षप्रीत सिंह भाटिया	आईआरडीई, देहरादून	12.08.2013
28.	2013AB1021	श्री मानवेन्द्र सिंह चौहान	आईटीआर, बालासोर	05.08.2013
29.	2012AB1050	श्री ब्रजेश कुमार	एलआरडीई, बेंगलोर	09.07.2012
30.	2013AB1035	श्री सौरभ कुमार	एन पी ओ एल, कोच्चि	05.08.2013
31.	2013AB1040	श्री अर्पन शर्मा	एन एस टी एल, विशाखापट्टनम	05.08.2013
32.	2013AB1016	श्री अभिमन्यु कुमार	आरसीआई, हैदराबाद	05.08.2013
33.	2012AB1074	श्री अंकित लाट	आरसीआई, हैदराबाद	09.07.2012
34.	2013AB1050	श्री सादू अन्वेश	आरसीआई, हैदराबाद	05.08.2013
35.	2013AB1055	श्री विकास जवारिया	आर एंड डी ई (ई), पुणे	12.08.2013
36.	2012AB1067	श्री विनय कुमार भोयार	आर एंड डी ई (ई), पुणे	09.08.2012
37.	2013AB1054	श्री उदयभान लोधी	एस एफ सी, जगदलपुर	19.08.2013
38.	2013AB1013	श्री श्रवन कुमार परमार	एस एफ सी, जगदलपुर	05.08.2013

रिमिता अहूजा,
उपनिदेशक/कार्मिक (डीआरडीएस-1)

वायु शाखा

संख्या 185, तारीख 1 अगस्त 2014—राष्ट्रपति, वा से अनु 20/76 के प्रावधानों के अंतर्गत, निम्नलिखित फ्लाइट कैडेट को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से फ्लाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइंग अफसर सुजीत कुमार सिंह (32742) 07 जनवरी 2013 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वायु सेना अनुदेश 20/76 तथा वायुसेना आदेश 59/98 के प्रावधानों के अन्तर्गत 10 एस ई सी (गैर तकनीकी) के निम्नलिखित तीन फ्लाइट कैडेटों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

पूर्व फ्लाइट-कैडेट से फ्लाइंग अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइंग अफसर सुंदरन जयराज (32158) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फलाइंग अफसर रंजन कुमार डे (32159) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फलाइंग अफसर मनोज शामराव नंदेशवर (32160) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत 129 जी डी ओ सी के निम्नलिखित बीस अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान करते हैं।

पूर्व फ्लाइट-कैडेट से फलाइंग अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फलाइंग अफसर कमल कुमार मिश्रा (32138), संदीप शर्मा (32139), विशाल व्यास (32140), पीयूष पारस नाथ शुक्ला (32141), महेश कुमार हिरालकर (32142), गगन दीप सिंह राजू (32143), गोविल गौतम (32144), विपुल मौर्या (32145), विवके गुरंग (32146), गौरव शर्मा (32147) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फलाइंग अफसर मुकेश यादव (32148), शिवम त्रिवेदी (32149), सत्यम भारती (32150), अमित मिश्रा (32151) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फलाइंग अफसर अतुल कुमार (3215), सीताराम प्रसाद नॉटियाल (32153), वरुण शर्मा (32154), मॉनिल प्रकाशकुमार जोशी (32155), बास्करन सुजित (32156) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में 113 नेव (188 पायलट कोर्स) के निम्नलिखित चार अफसरों को 29 दिसम्बर 2011 से फलाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) एवं ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर, स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) एवं ब्रेवेट प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 2011 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फलाइंग अफसर के रैंक में

फलाइंग अफसर प्रसून कुमार सिंह (32077), अजय शर्मा (32092), सौरभ कुमार शुक्ला (32096), पुधवी रेड्डी पारपतला (32098), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत 188 पायलट कोर्स के निम्नलिखित तिरसठ अफसरों को 29 दिसम्बर 11 से फलाइंग अफसर के रैंक में स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) एवं विंग प्रदान करते हैं। ये अफसर स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) एवं विंग प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फलाइंग अफसर के रैंक में

फलाइंग अफसर वरुण अग्रवाल (32071), आयुष कुणाल (3207), शशि कांत (32073), अक्षय चौधरी (32074), जशनदीप सिंह (32075), प्रियतम रेड्डी चिलारी (32076), हेमंत राज (32078), हिमांशु सिंह (32079), आदित्य भारती (32080), विजीत किशन (32081), वैभव पाशी (32082), गोपीकृष्णन एन मेनन (32083), नवीन यादव (32084), आकृत मोहन शर्मा (32085), सरीन आनंद (32086), राजशेखर शक्तिप्रसाद (32087), दीपांकर गर्ग (32088), मास्टर अभिनव राज (32089), अरशद अब्बास (32090), आर सुनील रामकृष्णन (32091), सिद्धार्थ मलिक (32093), देवकी नंदन शर्मा (32094), अभिनव उपाध्याय (32095), आशीष कुमार (32097), निवेदन सारस्वत (32099), हरीन मुकेश जोशी (32100), शिखर सिन्हा (32101), जय राजन नादपुरोहित (32102), प्रदीप सोनी (32103), रजनीश राय (32104), सूरज शशिकुमार नायर (32105), सिद्धार्थ मोहन शर्मा (32106), प्रशांत कुमार (32107), शशांक सिंह (32108), विक्रम प्रेमलाल गौपाले (32109), चंदन कुमार (32110), पुष्पेन्द्र बदसरा (32111), शुभांशु शर्मा (32112), राजदीप शर्मा (32113), प्रसाद संदीप नदकरनी (32114), शाश्वत देव (32115), अनुभव वालिया (32116), अभिषेक सिंह देवोनिया (32117), विनीत सिंह सिकरवार (32118), प्रतीक नंदकुमार बरहानपुरे (32119), गौरव (32120), सिद्धार्थ जीवन (32121), धीरज सिद्धू (32122), नीतिश तिवारी (32123), रोशन जैन (32124), विनय नायर (32125), वरुण (32126), सुनील कुमार राय (32127), रोहित लाल पटानिया (32128), वरुण ढान्डा (32129), मेघचन्द्रा थियम (32130), कौशिक परसुरामन (32131), गीगू जॉर्ज (32132), अर्पित गोयल (32133), मोहम्मद आहज़म खान (32134), माइकल मीनू वर्गीज (32135), चिन्मय ज्योति बोरा (32136), नवदीप राणा (32137), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV तारीख 14 जून 07 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में 06 एस एस सी (एम) पी सी, के निम्नलिखित सत्ताईस अफसरों को 29 दिसम्बर 11 से फलाइंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन (पी एस एस सी) एवं विंग प्रदान करते हैं। ये अफसर, अस्थायी अल्प सेवा कमीशन एवं विंग प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फलाइंग अफसर के रैंक में

फलाइंग अफसर वनका किशोर (32161), तन्मय अखिल जैन (32163), अंकित गौर (32164), आदित्य कुमार (32165), दीप किशोर हूडा (32166), महेश एम आर (32167), अमित कुमार यादव (32168), अभिषेक मल्होत्रा (32169), दिनेश कुमार (32170), अक्षय पाण्डे (32171), रवि ठाकुर (32172), अवि

राजपूत (32174), निशांत जमवाल (32175), सभरवाल ईशान (32176), सनी गर्ग (32177), मोहित ठाकुर (32179), रवित कुमार (32180), सत्य देव कौशिक (32183), नायडू के विक्रम (32185), वाइ कुमार किरण (32186), श्रीराम आर (32188), गौरव कुमार (32189), किरण पी एस (32190), अनुराज मेनन (32192), दिगविजय सिंह (32194), रोहित गुप्ता (32196), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) तारीख 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (पायलट) शाखा में 35 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट कोर्स के निम्नलिखित तीन अफसरों को 29 दिसम्बर 11 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन तथा विंग प्रदान करते हैं। ये अफसर, अस्थायी अल्प सेवा कमीशन तथा विंग प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 11 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर नाज़िया एम नदाफ (32214), निशा जैन (32215), गिन्नी चौधरी (32216), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV तारीख 14 जून 07 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में 113 नेव [06 एस एस सी (एम) पायलट कोर्स] के निम्नलिखित ग्यारह अफसरों को 29 दिसम्बर 2011 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन (पी एस एस सी) एवं ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर, अस्थायी अल्प सेवा कमीशन एवं ब्रेवेट प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 2011 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर विनीत कुमार (32162), क्षितिज भारत श्रीवास्तव (32173), शिल्के हरशद सखाहरि (32181), निखिल त्यागी (32184), अर्जुन मल्होत्रा (32187), वेणु गोपाल कृष्णा दासारी (32191), कपिल शुक्ला (32193), हरिहरण विनोद (32195), प्रत्युष गोपालन (32197), सुमित असवाल (32198), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वासेमु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/बी एम-IV तारीख 14 जून 07 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय वायु सेना की उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में 113 नेव [35 एस एस सी (डब्ल्यू) पायलट कोर्स] के निम्नलिखित दो अफसरों को 29 दिसम्बर 2011 से फ्लाईंग अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन (पी एस एस सी) और ब्रेवेट प्रदान करते हैं। ये अफसर, अस्थायी अल्प सेवा कमीशन और ब्रेवेट प्रदान करने की तारीख अर्थात् 29 दिसम्बर 2011 से उड़ान वेतन पाने के हकदार होंगे।

उड़ान (नेवीगेटर) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर स्वर्णिम अवस्थी (32217), सपना मलिक (32218), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अन्तर्गत, 22 एस एस सी (एम) जी डी ओ सी के निम्नलिखित पंद्रह अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

पूर्व फ्लाइट-कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर इशान भाटिया योगेश भाई (32199), मोहित शर्मा (32200), शिवम सिन्हा (32201), अमन महाजन (32202), अर्जुन सिंह (32203), निशान्त बाली (32204), अभिषेक (32205) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर हरजीत सिंह पुंडीर (32206), जुल्फकार हसन (32207), अजय कुमार ठाकुर (32208), दीपक सेजवाल (32209), एंजेलो बॉस्को दास (32210) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर चरणराज भारतीय पालीवाल (32211), पंकज रावत (3221), विजय कुमार अय्यलामोम्माजुला (32213), 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वा से मु/एस 24745/4/पी पी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) तारीख 23 अप्रैल 01 के प्रावधानों के अन्तर्गत, 38 एस एस सी (डब्ल्यू) जी डी ओ सी के निम्नलिखित छब्बीस अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

पूर्व फ्लाइट-कैडेट से फ्लाइट अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाइट अफसर मीनल पंत (32219), अकांक्षा पांडे (32220), अभिलाषा गौतम (32221), रेशुता लाकरा (32222), शेबा घोष (32223), संध्या कुमारी (32224), शिप्रा बिष्ट (32225), उर्वशी बलोरिया (32226), निकिता मार्कण्डेय (32227), आशिमा गेरा (32228), योगिता मेहता (32229), प्रीति यादव (32230), चांगनीथम किपेन (32231) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाइट अफसर श्री लक्ष्मी (32232), ईशा बहल (32233), जागृति मुखर्जी (32234), रिनी त्रिपाठी (32235), स्वाती नेगी (32236), सोनिया पुरी (32237) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाइट अफसर रोशनी सोइन (32238), सौम्या सेठ (32239), चारु सिंह (32240), पुरुषोत्तमन ससिकलादेवी अखिला (32241), अफशान अख्तर (3224), नीशा कुमारी (32243) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाइट अफसर अदिति घोष (32391) 26 अप्रैल 12 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 के प्रावधानों के अंतर्गत, 80 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइट अफसर के रैंक में अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक) शाखा

फ्लाइट अफसर नवीन कुमार सिंह (32252), शैलेन्द्र पाल सिंह (32278), 09 जनवरी 2012 से प्रभावी

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पीपी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) तारीख 23 अप्रैल 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत 52 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने लिखी तारीख से फ्लाइट अफसर के रैंक में अस्थायी अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइट अफसर जीशान अराबी (32303), अविनाश सामंता (32304), दिलीप कुमार नारथू (32305), पारनदमन अन्नादुराई (32306), पीयूष बंगरवा (32307), अनीश वर्गीज मौंसी (32309), चंदन कुमार (32310), एस श्रीनिवासन (32311), अक्षय अरुण गंगवाल (32312), नरेन्द्र सिंह बिष्ट (32313), अजेश एस (32314), विनीत कुमार वी (32315), नितिन पवार (32316), मुकेश कुमार (32317), रोहित कुमार सिंह (32318), प्रवीण कुमार (32319), गौडविन जेपी (32320), अंजन ब्रह्मा (32321) ईशान गुलाटी (32322), दिशा तिवारी (32331), आरती देशवाल (32332), मिशेल स्वाति माइकल (32333), 09 जनवरी 2012 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स) शाखा

फ्लाइट अफसर सुलभ महाजन (32323), एस शंकरन (32324), विजय पाटिल (32325), धीरज कुमार राठी (32327), तेजा डीवीएम (32328), मनोज एम (32329), अम्बर श्रीवास्तव (32330), श्रुति हंस (32334), प्रतिमा (32335), सिमरदीप कौर (32336), अस्मिता सहाय (32337), केतकी तोल (32338), सौम्या शर्मा (32339), सुमन शर्मा (32340), प्रीति शर्मा (32341), अपूर्व श्रीवास्तव (32342), आकांक्षा सिंह (32343), वत्सला जोशी (32344), ललिता मलिक (32345), रीतिका तोमर (32346), प्रथमा तक्षक (32348), शिखा चौधरी (32350), श्रेया दधीच (32352), शोभना गुप्ता (32353), प्रेरणा (32354), राजश्री होता (32355), जीजा अब्राहम (32356), अपूर्व प्रफुल्ल नांदेदकर (32357), ऐश्वर्या अजीत जोशी (32358), तरन्नुम भूटानी (32359), नेहा उपाध्याय (32361), 09 जनवरी 2012 से प्रभावी

राष्ट्रपति, वा से आ 59/98 तथा शुद्धिपत्र 10/84 द्वारा यथा संशोधित वा से अनु 2/73 के प्रावधानों के अंतर्गत, 80 ए ई सी के निम्नलिखित अफसरों का अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) समाप्त करते हैं तथा उन्हें, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक) शाखा

फ्लाइट अफसर नवीन कुमार सिंह (32252), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या वा से मु/24745/4/पीपी (ओ)/पी सी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) के प्रावधानों के अंतर्गत 52 एस एस सी (टी) के निम्नलिखित अफसरों का अस्थायी अल्प सेवा कमीशन समाप्त करते हैं तथा उन्हें, उनके नाम के सामने दी गई तारीख से फ्लाइट अफसर के रैंक में अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्रदान करते हैं।

वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)

फ्लाइट अफसर जीशान अराबी (32303), अविनाश सामंता (32304), दिलीप कुमार नारथू (32305), पारनदमन अन्नादुराई (32306), पीयूष बंगरवा (32307), अनीश वर्गीज मौंसी (32309), चंदन कुमार (32310), एस श्रीनिवासन (32311), अक्षय अरुण गंगवाल (32312), नरेन्द्र सिंह बिष्ट (32313), अजेश एस (32314), विनीत कुमार वी (32315), नितिन पवार (32316), मुकेश कुमार (32317), रोहित कुमार सिंह (32318), प्रवीण कुमार (32319), गौडविन जेपी (32320), अंजन ब्रह्मा (32321) ईशान गुलाटी (32322), दिशा तिवारी (32331), आरती देशवाल (32332), मिशेल स्वाति माइकल (32333), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)

फ्लाईंग अफसर सुलभ महाजन (32323), एस शंकरन (32324), विजय पाटिल (32325), धीरज कुमार राठी (32327), तेजा डीवीएम (32328), मनोज एम (32329), अम्बर श्रीवास्तव (32330), श्रुति हंस (32334), प्रतिमा (32335), सिमरदीप कौर (32336), अस्मिता सहाय (32337), केतकी तोल (32338), सौम्या शर्मा (32339), सुमन शर्मा (32340), प्रीति शर्मा (32341), अपूर्व श्रीवास्तव (32342), आकांक्षा सिंह (32343), वत्सला जोशी (32344) ललिता मलिक (32345), रीतिका तोमर (32346), प्रथमा तक्षक (32348), शिखा चौधरी (32350), श्रेया दधीच (32352), शोभना गुप्ता (32353), प्रेरणा (32354), राजश्री होता (32355), जीजा अब्राहम (32356), अपूर्व प्रफुल्ल नांदेदकर (32357), ऐश्वर्या अजीत जोशी (32358), तरन्नुम भूटानी (32359), नेहा उपाध्याय (32361), 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

तरुण खरे

विंग कमांडर

जेडीपीओ-3 (डी)

संख्या 186, दिनांक 4 अगस्त 2014—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अफसर को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी कमीशन (परखाधीन) तथा पूर्व तिथि (Ante-date) प्रदान करते हैं:—

भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिक्स)/ (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर के एम सिंह (32365), आई (एल)

02 जुलाई 12 तथा 02 जुलाई 10 से पूर्व तिथि प्रभावी

पूर्व फ्लाइट-कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक पर

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर सुंदरन जयराज (32158) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर रंजन कुमार डे (32159) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग अफसर मनोज शामराव नंदेशवर (32160) 29 दिसम्बर 11 से प्रभावी।

राष्ट्रपति, स्थायी कमीशन (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसर को 29 दिसम्बर 11 से वैमानिक शाखा में स्थायी करते हैं और इन्हें इनके नाम के सामने दी गई तारीख से पूर्व-दिनांकित स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:—

वैमानिक इंजीनियरी शाखा

फ्लाईंग अफसर एस. के. सिंह (3274) 07 जनवरी 2013 से प्रभावी

पूर्व-दिनांकित 07 जनवरी 11

राष्ट्रपति, स्थायी कमीशन प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को, उनके नाम के सामने दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :—

उड़ान (पायलट) शाखा

पूर्व फ्लाइट कैडेट से फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर वरुण अग्रवाल (32071), आयुष कुणाल (32072), शशि कांत (32073), अक्षय चौधरी (32074), जशनदीप सिंह (32075), प्रियतम रेड्डी चिलारी (32076), हेमंत राज (32078), हिमांशु सिंह (32079), आदित्य भारती (32080), विजीत किशन (32081), वैभव पाशी (32082), गोपीकृष्ण एन मेनन (32083), नवीन यादव (32084), आकृत मोहन शर्मा (32085), सरीन आनंद (32086), राजशेखर शक्तिप्रसाद (32087), दीपांकर गर्ग (32088), मास्टर अभिनव राज (32089), अरशद अब्बास (32090), आर सुनील रामकृष्ण (32091), सिद्धार्थ मलिक (32093), देवकी नंदन शर्मा (32094), अभिनव उपाध्याय (32095), आशीष कुमार (32097), निवेदन सारस्वत (32099), हरिन मुकेश जोशी (32100), शिखर सिन्हा (32101), जय राजन नादपुरोहित (32102), प्रदीप सोनी (32103), रजनीश राय (32104), सूरज शशिकुमार नायर (32105), सिद्धार्थ मोहन शर्मा (32106), प्रशांत कुमार (32107), शशांक सिंह (32108), विक्रम प्रेमलाल गौपाले (32109), चंदन कुमार (32110), पुष्पेन्द्र बदसरा (32111), शुभांशु शर्मा (32112), राजदीप शर्मा (32113), प्रसाद संदीप नदकरनी (32114), शाश्वत देव (32115), अनुभव वालिया (32116), अभिषेक सिंह देवोनिया (32117), विनीत सिंह सिकरवार (32118), प्रतीक नंदकुमार बरहानपुरे (32119), गौरव (32120), सिद्धार्थ जीवन (32121), धीरज सिद्धू (32122), नीतिश तिवारी (32123), रोशन जैन (32124), विनय नायर (32125), वरुण (32126), सुनील कुमार राय (32127), रोहित लाल पटानिया (32128), वरुण ढान्डा (32129), मेघचन्द्रा थियम (32130), कौशिक परसुरामन (32131), गीगू जॉर्ज (32132), अपित गोयल (32133), मोहम्मद आहज़म खान (32134), माइकल मीनू वर्गीज (32135), चिन्मय ज्योति बोरा (32136), नवदीप राणा (32137), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

राष्ट्रपति, उड़ान (नेवीगेटर) शाखा में स्थायी कमीशन तथा ब्रेवेट (परिवीक्षाधीन) प्राप्त निम्नलिखित अफसरों को नीचे दी गई तारीख से स्थायी करते हैं :-

पलाइंग अफसर प्रसून कुमार सिंह (32077), अजय शर्मा (32092), सौरभ कुमार शुक्ला (32096), प्रुधवी रेड्डी पारपतला (32098), 29 दिसम्बर 2011 से प्रभावी

तरुण खरे
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3 (डी)

सेना शाखा

स. 187, दिनांक 4 अगस्त 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन जयकर मिथील सुरेश (टीए-42661)	(इन्फैन्ट्री)	24 अप्रैल 2014
कैप्टन संजय कुमार चौहान (टीए-42663)	(इन्फैन्ट्री)	10 अप्रैल 2014
कैप्टन राजोली विजय के (टीए.42665)	(इन्फैन्ट्री)	17 अप्रैल 2014
कैप्टन दलवी केदार (टीए-42666)	(इन्फैन्ट्री)	25 अप्रैल 2014
कैप्टन विशाल स्वरूप (टीए-42667)	(इन्फैन्ट्री)	18 अप्रैल 2014
कैप्टन रविन्द्र सिंह सेखों (टीए-42375)	(इन्फैन्ट्री)	04 फरवरी 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

वायु सेना

सं. 188, दिनांक 5 अगस्त 2014—माननीय राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

पलाइट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक पर

एफ (एन) शाखा

आशिष यादव (29728) 16 दिसम्बर 2013 से प्रभावी

तरुण खरे
विंग कमांडर
संयुक्त निदेशक
कार्मिक अफसर-3 (डी)

थल सेना विभाग

संख्या 189, तारीख 5 अगस्त 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुदर्शन सिंह (जे सी-420852 के) 02 जून 2014•

• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मिट्ठू लाल जांगीर	(जे सी-422167 एक्स)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार अरविंद कुमार साहु	(जे सी-421825 एम)	06 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार प्रणव कुमार सेना	(जे सी-422168 ए)	01 मई 2014
नायब सूबेदार रामावतार	(जे सी-421587 एल)	28 जून 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बगुल पंकज सुभाशराव	(जे सी-421645 के)	12 जून 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार अखिलेश चंद्र यादव	(जे सी-422096 एफ)	13 जून 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार दिनेश कुमार सिंह	(जे सी-422032 डब्ल्यू)	02 जुलाई 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार स्वामी नाथ	(14919308 पी अब जे सी-422643 एल)	09 अप्रैल 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार विक्रम सिंह	(14920119 एक्स अब जे सी-422644 एन)	24 मई 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार मंगल चन्द गुर्जर	(14922023 एन अब जे सी-422645 एन)	09 मई 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार गुरदीप सिंह	(14921345 एफ अब जे सी-422646 वाई)	28 मई 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		
हवलदार मल्ला लक्ष्मी वेंकटाराव	(14918442 एन अब जे सी-422647 एफ)	18 जून 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मई 2014 से दी जाती है)		
हवलदार एस कनन्	(14918922 एक्स अब जे सी-422648 के)	01 जून 2014
हवलदार जितेन्द्र वशिष्ठ	(14919326 एक्स अब जे सी-422649 एम)	02 जून 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
हवलदार रंजीत कुमार सिंह	(14922030 के अब जे सी-422650 एफ)	02 जून 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
हवलदार शिव कुमार तेवारी	(14921476 एम अब जे सी-422651 के)	01 जून 2014
हवलदार तोड़जम मुहिन्द्रो सिंह	(14921827 डब्ल्यू अब जे सी-422652 एम)	13 जून 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
हवलदार समय सिंह गुर्जर	(14919415 डब्ल्यू अब जे सी-422653 पी)	01 जुलाई 2014

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बलकार सिंह	(जे सी-420318 एम)	21 अप्रैल 2014•
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार प्रमोद कुमार यादव	(जे सी-420684 डब्ल्यू)	02 मई 2014•
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार ओम प्रकाश	(जे सी-421706 डब्ल्यू)	11 अक्टूबर 2013•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार सुपेन्द्र सिंह	(जे सी-421802 एल)	01 नवम्बर 2013
नायब सूबेदार नरेश कुमार रात्रे	(जे सी-422002 के)	07 अप्रैल 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार राकेश कुमार वर्मा	(जे सी-421502 के)	26 फरवरी 2014
नायब सूबेदार पंकज कुमार मैती	(जे सी-421651 एक्स)	03 मई 2014•
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सुरेश कुमार	(जे सी-421921 एफ)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार तारनेकर अशोक तुकाराम	(जे सी-422005 एम)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार तरलोक सिंह	(जे सी-422063 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(जे सी-422120 एम)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित	(जे सी-421522 एक्स)	01 मई 2014
नायब सूबेदार राम प्रसाद	(जे सी-421686 एन)	01 मई 2014
नायब सूबेदार स्वदेश कुमार	(जे सी-421709 के)	01 मई 2014
नायब सूबेदार राकेश सिंह	(जे सी-421934 वाई)	01 मई 2014
नायब सूबेदार छोक्काकुला ए रामाकृष्णा	(जे सी-422064 वाई)	01 मई 2014
नायब सूबेदार सुनिल कुमार	(जे सी-422065 एफ)	01 मई 2014
नायब सूबेदार बाल मुकंद	(जे सी-422066 के)	01 मई 2014
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार अखिलेश कुशवाहा	(14919309 एक्स अब जे सी-422629 वाई)	07 अप्रैल 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार जयदेव डिंडा	(14920438 के अब जे सी-422630 एन)	26 मई 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार चेतन कुमार	(14921320 पी अब जे सी-422631 डब्ल्यू)	05 अप्रैल 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार तेज नारायण सिंह	(14922358 एल अब जे सी-422632 वाई)	25 अप्रैल 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
हवलदार व्ही रामा मूर्ती	(14918451 पी अब जे सी-422633 एफ)	08 मई 2014•
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		
हवलदार गुरदीप सिंह	(14919965 वाई अब जे सी-422634 के)	01 मई 2014
हवलदार अबनीश कुमार	(14917775 एन अब जे सी-422635 एम)	01 मई 2014
हवलदार सुनिल कुमार	(14921371 एच अब जे सी-422636 पी)	01 मई 2014
हवलदार रमेश प्रसाद	(14921925 डब्ल्यू अब जे सी-422637 एक्स)	01 मई 2014
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(14919452 के अब जे सी-422638 ए)	01 मई 2014
सूबेदार (लिपिक) के रैंक में		
नायब सूबेदार (लिपिक) सुरेश नागर	(जे सी-422141 एच)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) कमल सहा	(जे सी-422142 एल)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) पटकल शिवाजी विठ्ठल	(जे सी-422143 एन)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) सहानी शिव सहाय श्रीकिशनन	(जे सी-422144 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) सच्चिदानंद यादव	(जे सी-422146 एफ)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) एम ए गुरुदेवन	(जे सी-422147 के)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) व्ही साई प्रसाद	(जे सी-422148 एम)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) राकेश पाठक	(जे सी-422149 पी)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) अनूप कुमार डे	(जे सी-422150 के)	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार (लिपिक) दिलवर सिंह	(जे सी-422151 एम)	04 अप्रैल 2014 •
• (सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार (लिपिक) भुपीन्द्र सिंह ढिल्लौन	(जे सी-422152 पी)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) केदार चंद्रा नायक	(जे सी-422154 ए)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) जी रमेश	(जे सी-422155 एच)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) भरत सिंह	(जे सी-422156 एल)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) वेंकटेश कुमार	(जे सी-422157 एन)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) ढोले किशनाथ हनमंत	(जे सी-422158 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) भीम गराई	(जे सी-422161 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) सुखपाल सिंह	(जे सी-422162 वाई)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) मुकुंदन ई के	(जे सी-422197 पी)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) नागेन्द्र कुमार तिवारी	(जे सी-422224 एन)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) हरि कृष्ण पान्डे	(जे सी-422225 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) गजेन्द्र कुमार	(जे सी-422226 वाई)	01 अप्रैल 2014
नायब सूबेदार (लिपिक) बलवान सिंह	(जे सी-422280 एम)	01 मई 2014

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) ईनुमुला लिंगायाह	(14920974 एम अब जे सी-422607 ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) सतबीर सिंह	(14921273 एच अब जे सी-422608 एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) एन श्रीनिवासन	(14916940 एफ अब जे सी-422609 एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) राज पाल ठाकूर	(14922822 के अब जे सी-422610 ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) राजेश कुमार	(14922824 पी अब जे सी-422611 एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) राजीन्द्र कुमार	(14922825 एक्स अब जे सी-422612 एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) बलबीर सिंह राठोर	(14922826 ए अब जे सी-422613 एन)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश	(14922827 एच अब जे सी-422614 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) सूरज सिंह	(14922828 एल अब जे सी-422615 वाई)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) सत्या देव यादव	(14922863 एन अब जे सी-422616 एफ)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) कैलाशी राम	(14922900 डब्ल्यू अब जे सी-422617 के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) सतेन्दर सिंह	(14922930 एन अब जे सी-422618 एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) मनोज कुमार के	(14922959 डब्ल्यू अब जे सी-422619 पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) राजेन्द्र प्रसाद सैनी	(14922961 एन अब जे सी-422620 के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) राजेश ए व्ही	(14918968 ए अब जे सी-422621 एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) गानेम श्रीनिवासा राव	(14919250 एच अब जे सी-422622 पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार जेना	(14919639 डब्ल्यू अब जे सी-422623 एक्स)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) आर व्ही एस नारायणा पोलीमेरा	(14919824 के अब जे सी-422624 ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) विनय सिंह	(14923911 पी अब जे सी-422625 एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) श्रीजीथ के	(14923927 ए अब जे सी-422626 एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) प्रकाश चंद भट्ट	(14923928 एच अब जे सी-422627 एन)	01 अप्रैल 2014
हवलदार (लिपिक) गुलाब सिंह	(14923953 एफ अब जे सी-422628 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2014

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

- हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार (14920210 एन अब जे सी-422641 ए) 04 जून 2014 •
- (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2014 से दी जाती है।)
- हवलदार (लिपिक) गणेश सिंह (14919999 एम अब जे सी-422642 एच) 02 जून 2014 •
- (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2014 से दी जाती है।)

क्वचित कोर

स्थायी रिसालदार के रैंक में

1. नायब रिसालदार धरमबीर (जेसी-244820डब्ल्यू) *08 अक्तुबर 2013
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 सितम्बर 2011 से दी जाती है)
2. नायब रिसालदार विरेन्द्रा सिंह (जेसी-244267वाय) *01 अप्रैल 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)
3. नायब रिसालदार हनुमान प्रसाद (जेसी-244508एन) *12 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)
4. नायब रिसालदार कृष्ण कुमार (जेसी-244566एक्स) *24 फरवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जाती है)
5. नायब रिसालदार शौकत खान गौर (जेसी-245411पी) *07 फरवरी 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 फरवरी 2014 से दी जाती है)
6. नायब रिसालदार प्रदीप के जी (जेसी-245624एच) *05 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2014 से दी जाती है)
7. नायब रिसालदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-244712एम) 01 मार्च 2014
8. नायब रिसालदार वीर पाल (जेसी-244718एन) *10 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)
9. नायब रिसालदार बचित्रा सिंह (जेसी-244919एम) *03 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)
10. नायब रिसालदार ईसमाइल बेग (जेसी-244970एम) 01 मार्च 2014
11. नायब रिसालदार बशीर खान कायम खान (जेसी-245412एक्स) *08 मार्च 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जाती है)
12. नायब रिसालदार सुखबीर (जेसी-244037एल) *05 अप्रैल 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)
13. नायब रिसालदार सुशील कुमार (जेसी-244523एच) *21 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)
14. नायब रिसालदार रवीन्द्रा सिंह (जेसी-244672डब्ल्यू) *17 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)
15. नायब रिसालदार दादासो पाटिल (जेसी-244761पी) 01 अप्रैल 2014
16. नायब रिसालदार दया राम (जेसी-244838एम) 01 अप्रैल 2014

17	नायब रिसालदार	भिम चन्द्रा घोष	(जेसी-245068एक्स)	*16 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)				
18	नायब रिसालदार	नवदिप सिंह	(जेसी-245331एक्स)	*13 अप्रैल 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)				
19	नायब रिसालदार	विपिन के एस	(जेसी-245625एल)	*05 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)				
20	नायब रिसालदार	पवन सिंह	(जेसी-244038एन)	*29 अप्रैल 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2014 से दी जाती है)				
21	नायब रिसालदार	रामेश्वर सिंह	(जेसी-243960डब्ल्यू)	01 मई 2014
22	नायब रिसालदार	वी कुमारसन	(जेसी-244051एक्स)	01 मई 2014
23	नायब रिसालदार	उदय सिंह	(जेसी-244301एन)	01 मई 2014
24	नायब रिसालदार	चिन्ना सामी जी	(जेसी-244313एच)	01 मई 2014
25	नायब रिसालदार	राकेश कुमार उरमलिया	(जेसी-244387एक्स)	01 मई 2014
26	नायब रिसालदार	अरुल अन्नंदा राजन सी	(जेसी-244656वाय)	*02 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)				
27	नायब रिसालदार	सतनाम सिंह	(जेसी-244719डब्ल्यू)	01 मई 2014
28	नायब रिसालदार	रविन्दर	(जेसी-244996एफ)	01 मई 2014
29	नायब रिसालदार	ईशवर सिंह	(जेसी-245158वाय)	01 मई 2014
30	नायब रिसालदार	मुस्ताक खान	(जेसी-245415एल)	*07 मई 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)				
31	नायब रिसालदार	राकेश कुमार	(जेसी-244060वाय)	*04 जून 2014
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
32	नायब रिसालदार	पी पिछामनि	(जेसी-244303वाय)	01 जून 2014
33	नायब रिसालदार	पी सीनिवासगम	(जेसी-244437एक्स)	01 जून 2014
34	नायब रिसालदार	हिमान्शु मंडल	(जेसी-244438ए)	01 जून 2014
35	नायब रिसालदार	के चंद्राशेखर	(जेसी-245114एफ)	01 जून 2014
36	नायब रिसालदार	सुखवंत सिंह	(जेसी-245271एन)	01 जून 2014

नायब रिसालदार के रैंक में

1	दफादार	शंभु ठाकुर	(सं0 1099398डब्ल्यू अब जेसी-246542एम)	01 मई 2014
2	दफादार	नरीन्दर सिंह	(सं0 15462972डब्ल्यू अब जेसी-246615एन)	10 नवम्बर 2011
3	दफादार	प्रमोद कुमार	(सं0 15467731ए अब जेसी-246610पी)	*21 मई 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)				
4	दफादार	योगेश सिंह	(सं0 15462359के अब जेसी-246614एल)	*15 मई 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2014 से दी जाती है)				

5	दफादार	ओमवीर	(सं० 15463251वाय अब जेसी-246561एक्स)	01 अप्रैल 2014
6	दफादार/ क्लर्क	राजेश सिहाग	(सं० 15468862एक्स अब जेसी-246637एम)	01 जून 2014
7	दफादार/ क्लर्क	चंदन सिंह	(सं० 15469508पी अब जेसी-246632एन)	01 जून 2014
8	दफादार/ क्लर्क	हरबीर सिंह	(सं० 15467821एफ अब जेसी-246636के)	*02 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
9	दफादार	मोहम्मद सदरे आलम	(सं० 15469584एफ अब जेसी-246638पी)	*02 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
10	दफादार	पुरुषोत्तम दास शुक्ला	(सं० 15461902एल अब जेसी-246603वाय)	*02 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
11	दफादार	सुखविन्दर राम	(सं० 15463889एल अब जेसी-246613एच)	01 जून 2014
12	दफादार	जनकार सिंह	(सं० 15465615वाय अब जेसी-246616डब्ल्यू)	*04 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
13	दफादार	सुखवंत सिंह	(सं० 15463836एम अब जेसी-246617वाय)	01 जून 2014
14	दफादार	गोविन्द प्रसाद शर्मा	(सं० 15468105एच अब जेसी-246620वाय)	01 जून 2014
15	दफादार	भुप सिंह	(सं० 15468349डब्ल्यू अब जेसी-246621एफ)	01 जून 2014
16	दफादार	केशवा मुर्ती एन जे एस	(सं० 15465145वाय अब जेसी-246626ए)	01 जून 2014
17	दफादार	तसवीर सिंह	(सं० 15463974एन अब जेसी-246631एल)	*05 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
18	दफादार	धमेन्द्र सिंह गौतम	(सं० 15463140एफ अब जेसी-246635एफ)	*06 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)				
19	दफादार	मोहमुदीन खान कायम खान	(सं० 15468993एच अब जेसी-246640एम)	*12 जून 2014
(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2014 से दी जाती है)				

राजीव जौहरी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

स. 190, दिनांक 6 अगस्त 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं—

श्री जी नागेन्द्रा राब को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 05 जनवरी 2010 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9,300-34,800/- (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्रीमती सिंधिया एडवर्डस को भंडार अधिकारी, ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2010 (पूर्वाहन) से पै बैंड 2 में रु. 9,300-34,800/- (पी बी 2) एवं ग्रेड पे रु. 4,600/- पर।

श्री आर बी आढाव को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15,600-39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

श्री एस पी ताठे को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15,600-39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर ।

श्री एस आर शेवगांवकर को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15,600-39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर ।

श्री वी बी खोले को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15,600-39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर ।

श्री एम सी कुरीहाल को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 जनवरी 2014 (पूर्वाहन) से पै बैंड 3 में रु. 15,600-39,100/- (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर ।

राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई पदों तथा तारीख से डीआरडीओ में सहर्ष (ग्रुप बी) राजपत्रित पदोन्नतियां करते हैं -

क्रम सं.	नाम	पद	स्था/प्रयो0	कार्यभार ग्रहण की तारीख	पे बैंड तथा ग्रेड पे
01	श्री एस सी वेदवाल	प्रशासनिक अधिकारी	आईआरडीई, देहरादून	01.05.2013	पीबी2] ग्रेड पे 4,600/-
02	श्री हरजिन्दर सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	सासे, चंडीगढ़	01.01.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600/-
03	श्रीमती के अम्बिका सेतुमाधवन	निजी सचिव	एलआरडीई, बैंगलोर	09.05.2014 अपराहन	पीबी2] ग्रेड पे 4,600/-
04	श्री ए श्रीनिवासा	निजी सचिव	एलआरडीई, बैंगलोर	01.06.2014	पीबी2] ग्रेड पे 4,600/-

राजीव रंजन सिन्हा
उपनिदेशक (कार्मिक)

संशोधित पत्र

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

स.191, दिनांक 6 अगस्त 2014—

1. भारत का राजपत्र संख्या 44 के पेज नम्बर 1163 में संख्या 306 दिनांक 20 सितम्बर 2013 में संशोधन हेतु:-

के लिए : श्री अरुण कुमार वी को उपनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' के रूप में एक वर्ष की परखावधि पर डी आर डी ओ में 01 दिसम्बर 2013 (पूर्वाहन) से पै बैंड रु. 15,600-39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 6,600/- पर ।

पढे : श्री अरुण कुमार वी को उपनिर्माण अभियन्ता, ग्रुप 'ए' के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 01 दिसम्बर 2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड 3 में रु. 15600—39100 (पी बी 3) एवं ग्रेड पे रु. 5400 पर ।

राजीव रंजन सिन्हा
उपनिदेशक (कार्मिक ए2)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd August 2014

ARMY BRANCH

No. 182, dated 31st July 2014—The President is pleased to make the following appointment:—

TERRITORIAL ARMY

ANTE DATE SENIORITY

SS-37638K Ex Lt now TA-42876A Lieutenant Pareekshit Misra has been granted commission as an officer in the Territorial Army (Infantry) on 28 Jun 2013 in the rank of Lieutenant under the provision given in Appendix VIII of TA Act Rule 1948. He is also granted 05 years & 82 days (06.03.1999 to 28.05.2004) ante date seniority with effect from 06 Apr 2008 in the rank of Lieutenant for his former service in the Regular Army. By virtue of his ante date seniority, he is promoted as Captain with effect from 28 Jun 2013. Also the officer is promoted with notional seniority for pay and promotion in the rank of Captain with effect from 06 Apr 2012 under the provisions of Para 25 (a) & 38 (a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976) as amended vide Government of India, Ministry of Defence letter No 18 (1)2006/D (GS-1) dated 18 Apr 06 consequent to recommendations of AVSC Committee report for increments of pay and promotion purpose.

B. B. JOSHI
Under Secy

No. 183, dated 31st July 2014—The President is pleased to withdraw the following appointment:—

INDIAN NAVY

EX-POST-FACTO SANCTION FOR WITHDRAWAL

OF HONORARY COMMISSION

Ex post facto sanction is hereby accorded for withdrawal of grant of Honorary Commission in the rank of Sub Lieutenant to undermentioned MCPO-II with effect from 26 Jan 2014.

Parveen Kumar Sharma

MC ERA II

193311-W

P MURUGESAN
Vice Admiral
Chief of Personnel Integrated Headquarters

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 184, dated 1st August 2014—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual (s) to be temporary Scientist (s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5400/- :—

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1.	2013AB1044	Shri Vivek Bharti	ADE, Bangalore	05.08.2013
2.	2013AB1009	Shri Mohit Kumar Singh	ADE, Bangalore	07.08.2013
3.	2013AB1006	Shri Balamuralidharan P	ADE, Bangalore	05.08.2013

4.	2013AB1005	Shri Vinit Kumar Ranjan	ADRDE, Agra	05.08.2013
5.	2013AB1015	Shri Jitesh Sharma	ANURAG, Hyderabad	05.08.2013
6.	2013AB1039	Shri Mrinmoy Biswas	ASL, Hyderabad	05.08.2013
7.	2013AB1022	Shri Prasann Jaiswal	CABS, Bangalore	05.08.2013
8.	2013AB1027	Shri Prafful Gupta	CABS, Bangalore	05.08.2013
9.	2013AB1014	Ms Ananya Chatterjee	CAIR, Bangalore	05.08.2013
10.	2013AB1025	ShriShashank Bhushan	CAIR, Bangalore	05.08.2013
11.	2013AB1032	Shri Velalam Paritosh Kumar	CHESS, Hyderabad	05.08.2013
12.	2009AB1527	Shri Vengadesh D	CVRDE, Chennai	01.12.2009
13.	2013AB1031	Shri Prashant Singh	DARE, Bangalore	05.08.2013
14.	2013AB1036	Ms Priyanka Sonagara	DEAL, Dehradun	05.08.2013
15.	2013AB1030	Ms Aditi Sharma	DEBEL, Bangalore	05.08.2013
16.	2012AB1024	Ms Suman Tiga	DIHAR, Leh	15.11.2012
17.	2013AB1023	Shri Bhagirath Choudhary	DL, Jodhpur	05.08.2013
18.	2013AB1017	Ms Kiran Kumari	DLRL, Hyderabad	05.08.2013
19.	2012AB1027	Shri Shishir	DMRL, Hyderabad	09.07.2012
20.	2013AB1047	Shri Bipin Kedia	DMRL, Hyderabad	05.08.2013
21.	2009AB1675	Shri Jeyaseelan K	DRDL, Hyderabad	01.12.2009
22.	2013AB1010	Shri Saurabh Kumar Sonkar	DRDL, Hyderabad	05.08.2013
23.	2010AB1009	Shri Siddhant Dipak Nirmale	DRDL, Hyderabad	15.02.2010
24.	2013AB1011	Ms Suntu Rongpipi	HEMRL,Pune	05.08.2013
25.	2013AB1046	Shri Gamit Vipulkumar Arunkumar	HEMRL,Pune	05.08.2013
26.	2013AB1012	Shri Sandeep Kumar	HEMRL, Pune	05.08.2013
27.	2013AB1053	Shri Harshpreet Singh Bhatia	IRDE, Dehradun	12.08.2013
28.	2013AB1021	Shri Manvendra Singh Chauhan	ITR, Balasore	05.08.2013
29.	2012AB1050	Shri Brajesh Kumar	LRDE, Bangalore	09.07.2012
30.	2013AB1035	Shri Saurabh Kumar	NPOL, Kochi	05.08.2013
31.	2013AB1040	Shri Arpan Sharma	NSTL, Vishakhapatnam	05.08.2013
32.	2013AB1016	Shri Abhimanyu Kumar	RCI, Hyderabad	05.08.2013
33.	2012AB1074	Shri Ankit Lat	RCI, Hyderabad	09.07.2012
34.	2013AB1050	Shri Sadu Anvesh	RCI, Hyderabad	05.08.2013
35.	2013AB1055	Shri Vikas Jawaria	R&DE (E), Pune	12.08.2013
36.	2012AB1067	Shri Vijay Kumar Bhoyar	R&DE (E), Pune	09.08.2012

37.	2013AB1054	Shri Udaybhan Lodhi	SFC, Jagdalpur	19.08.2013
38.	2013AB1013	Shri Shravan Kumar Parmar	SFC, Jagdalpur	05.08.2013

SMITA AHUJA
Dy. Director/Pers (S-1)

AIR BRANCH

No. 185, dated 1st August 2014—The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned Flt Cdt in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against his name under the provisions of AFI 20/76.

INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Fg Offr Sujeet Kumar Singh (32742) wef 07 Jan 13

The President is pleased to grant Permanent Commission (On Probation) to the undermentioned three Flt Cdts of 10 SEC (Non Tech) in the rank of Fg Offr wef the dates as mentioned against their names under the provisions of AFI 20/76 and AFO 59/98.

Ex Flt Cdts to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Sundaran Jayaraj (32158) wef 29 Dec 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Ranjan Kumar Dey (32159) wef 29 Dec 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Manoj Shamrao Nandeshwar (32160) wef 29 Dec 11.

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned twenty officers of 129 GDOC wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Kamal Kumar Mishra (32138), Sandeep Sharma (32139), Vishal Vyas (32140), Piyush Paras Nath Shukla (32141), Mahesh Kumar Hiralkar (32142), Gagan Deep Singh Raju (32143), Govil Gautam (32144), Vipul Maurya (32145), Vivek Gurung (32146), Gaurav Sharma (32147) wef 29 Dec 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Mukesh Yadav (32148), Shivam Trivedi (32149), Satyam Bharti (32150), Amit Mishra (32151) wef 29 Dec 11.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Atul Kumar (32152), Sitaram Prasad Nautiyal (32153), Varun Sharma (32154), Maunil Prakashkumar Joshi (32155), Baskaran Sujit (32156) wef 29 Dec 11.

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Brevets in the Flying (Navigator) Branch of the IAF to the undermentioned four officers of 113 NAV (188 Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11 under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC (On Probation) & Brevets i.e. 29 Dec 11.

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Prasun Kumar Singh (32077), Ajay Sharma (32092), Saurabh Kumar Shukla (32096), Prudhvi Reddy Parapatla (32098), wef 29 Dec 11.

The President is pleased to award Permanent Commission (On Probation) and Wings to the undermentioned sixty three officers of 188 Pilot Course in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11, under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC (On Probation) & Wings i.e. 29 Dec 11.

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Varun Agrawal (32071), Ayush Kunal (32072), Shashi Kant (32073), Akshay Choudhary (32074), Jashandeep Singh (32075), Priyatham Reddy Chillari (32076), Hemant Raj (32078), Himanshu Singh (32079), Aditya Bharti (32080), Vijeet Kishan (32081), Vaibhav Passi (32082), Gopikrishnan N Menon (32083), Naveen Yadav (32084), Akrit Mohan Sharma (32085), Sareen Anand (32086), Rajasekar Sakthiprasath (32087), Deepanker Garg (32088), Master Abhinav Raj (32089), Arshad Abbas (32090), R Sunil Ramakrishnan (32091), Siddharth Malik (32093), Devki Nandan Sharma (32094), Abhinav Upadhyay (32095), Ashish Kumar (32097), Nivedan Saraswat (32099), Hareen Mukesh Joshi (32100), Shikhar Sinha (32101), Jai Rajan Nadpurohit (32102), Pradeep Soni (32103), Rajnish Rai (32104), Suraj Saashikumar Nair (32105), Siddharth Mohan Sharma (32106), Prashant Kumar (32107), Shashank Singh (32108), Vikram Premlal Gaupale (32109), Chandan Kumar (32110), Pushpender Badsara (32111), Shubhranshu Sharma (32112), Rajdeep Sharma (32113), Prasad Sandeep Nadkarni (32114), Shashwat Dev (32115), Anobhav Walia (32116), Abhishek Singh Deonia (32117), Vinit Singh Sikarwar (32118), Pratik Nandkumar Barhanpure (32119), Gaurav (32120), Siddharth Jeevan (32121), Dheeraj Siddhu (32122), Nitish Tiwari (32123), Roshan Jain (32124), Vinay Nair (32125), Barun (32126), Sunil Kumar Rai (32127), Rohit Lal Pathania (32128), Varun Dhanda (32129), Meghachandra Thiyam (32130), Kaushik Parasuraman (32131), Gigu George (32132), Arpit Goyal (32133), Mohammad Ahzam Khan (32134), Michael Minoo Varghese (32135), Chinmoy Jyoti Bora (32136), Navdip Rana (32137), Wef 29 Dec 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Wings in Flying (Pilot) Branch of the IAF, to the undermentioned twenty-seven officers of 06 SSC (M) PC, in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP (O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 29 Dec 11.

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Vanka Kishor (32161), Tanmay Akhil Jain (32163), Ankit Gaur (32164), Aditya Kumar (32165), Deep Kishore Hooda (32166), Mahesh MR (32167), Amit Kumar Yadav (32168), Abhishek Malhotra (32169), Dinesh Kumar (32170), Akshay Pande (32171), Ravi Thakur (32172), Avi Rajpoot (32174), Neeshant Jamwal (32175), Sabharwal Ishan (32176), Sunny Garg (32177), Mohit Thakur (32179), Ravit Kumar (32180), Satya Dev Kaushik (32183), Naidu K Vikram (32185), Y Kumar Kiran (32186), Sriram R (32188), Gaurav Kumar (32189), Kiran PS (32190), Anuraj Menon (32192), Digvijay Singh (32194), Rohit Gupta (32196), wef 29 Dec 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings in Flying (Pilot) Branch of the IAF to the undermentioned three officers of 35 SSC (W) Pilot Course in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11, under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP (O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 01. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 29 Dec 11.

FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Nazia M Nadaf (32214), Nisha Nain (32215), Ginni Chaudhary (32216), Wef 29 Dec 11

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) branch of the IAF to the undermentioned eleven officers of 113 NAV (06 SSC (M) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP (O)/BM-IV dated 14 Jun 07. These officers are eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 29 Dec 11.

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Vineet Kumar (32162), Kshitij Bharat Shrivastav (32173), Shelke Harshad Sakhahari (32181), Nikhil Tyagi (32184), Arjun Malhotra (32187), Venu Gopal Krishna Dasari (32191), Kapil Shukla (32193), Hariharan Vinod (32195), Pratyush Gopalan (32197), Sumit Aswal (32198), wef 29 Dec 11

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission (PSSC) and Brevets in Flying (Navigator) Branch of the IAF to the undermentioned two officers of 113 NAV (35 SSC (W) Pilot Course) in the rank of Fg Offr wef 29 Dec 11 under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/S 24745/4/PP (O)/BM-IV dated 14 Jun 07. The officer is eligible for flying pay wef the date of grant of PSSC & Brevets i.e. 29 Dec 11.

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Swarnim Awasthi (32217), Sapna Malik (32218), wef 29 Dec 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned fifteen officers of 22 SSC (M) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP (O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 01.

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Ishan Bhatia Yogeshbhai (32199), Mohit Sharma (32200), Shivam Sinha (32201), Aman Mahajan (32202), Arjun Singh (32203), Nishant Bali (32204), Abhishek (32205), wef 29 Dec 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Harjeet Singh Pundir (32206), Zulfquar Hasan (32207), Ajay Kumar Thakur (32208), Deepak Sejwal (32209), Angelo Bosco Das (32210), wef 29 Dec 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Charanraj Bhartiya Paliwal (32211), Pankaj Rawat (32212), Vijay Kumar Ayyalasomayajula (32213), wef 29 Dec 11.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned twenty six officers of 38 SSC (W) GDOC wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24745/4/PP (O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 01.

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Meenal Pant (32219), Akanksha Pandey (32220), Abhilasha Gautam (32221), Reshuta Lakra (32222), Sheba Ghosh (32223), Sandhya Kumari (32224), Shipra Bisht (32225), Urvashi Baloria (32226), Nikita Markanday (32227), Ashima Gera (32228), Yogita Mehta (32229), Priti Yadav (32230), Chongneithem Kipgen (32231) wef 29 Dec 11.

LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Sreelakshmi (32232), Isha Behal (32233), Jagriti Mukherjee (32234), Rini Tripathi (32235), Swati Negi (32236), Sonia Puri (32237) wef 29 Dec 11.

ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr Roshni Soin (32238), Saumya Seth (32239), Charu Singh (32240), Purushothaman Sasikaladevi Akhila (32241), Afshan Akhtar (32242), Neesha Kumari (32243) wef 29 Dec 11.

EDUCATION BRANCH

Fg Offr Aditi Ghosh (32391) wef 26 Apr 12.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers of 80 AEC in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Navin Kumar Singh (32252), Shailendra Pal Singh (32278) wef 09 Jan 12.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers of 52 SSC (T) wef the dates as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP (O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Zeeshan Arabi (32303), Avinash Samanta (32304), Dilip Kumar Narthu (32305), Parandaman Annadurai (32306), Piyush Bangarwa (32307), Anish Varghese Monci (32309), Chandan Kumar (32310), S Srinivasan (32311), Akshay Arun Gangwal (32312), Narendra Singh Bisht (32313), Ajesh S (32314), Vinith Kumar V (32315), Nitin Panwar (32316), Mukesh Kumar (32317), Rohit Kumar Singh (32318), Praveen Kumar (32319), Godwin JP (32320), Anjan Brahma (32321), Ishan Gulati (32322), Disha Tiwari (32331), Aarti Deshwal (32332), Michelle Swati Michael (32333), wef 09 Jan 12

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Sulabh Mahajan (32323), S Sankaran (32324), Vijay Patil (32325), Dheeraj Kumar Rathee (32327), Teja DVM (32328), Manoj M (32329), Ambar Srivastava (32330), Shruti Hans (32334), Pratima (32335), Simardeep Kaur (32336), Asmita Sahai (32337), Ketki Tol (32338), Someya Sharma (32339), Suman Sharma (32340), Preeti Sharma (32341), Apoorva Srivastava (32342), Akanksha Singh (32343), Vatsala Joshi (32344), Lalita Malik (32345), Ritika Tomar (32346), Prathama Takshak (32348), Shikha Chaudhary (32350), Shreeya Dadheech (32352), Shobhana Gupta (32353), Prerana (32354), Rajashree Hota (32355), Jeeja Abraham (32356), Apurva Prafulla Nandedkar (32357), Aishwarya Ajit Joshi (32358), Tarannum Bhutani (32359), Neha Upadhyay (32361), wef 09 Jan 12

The President is pleased to terminate the Short Service Commission (on probation) granted to the undermentioned officers of 80 AEC and grant them Permanent Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98 and AFI 2/73 a/a by Corr 10/84.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS) BRANCH

Fg Offr Navin Kumar Singh (32252), wef 07 Jan 13.

The President is pleased to terminate the Provisional short Service Commission granted to the undermentioned officers of 52 SSC (T) and grant them Short Service Commission (On probation) wef the date as mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence letter No. Air HQ/24745/4/PP (O)/PC-I/184/DS/D (Air-III) dated 23 Apr 2001 in the rank of Flying Officer.

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICALS)

Fg Offr Zeeshan Arabi (32303), Avinash Samanta (32304), Dilip Kumar Narthu (32305), Parandaman Annadurai (32306), Piyush Bangarwa (32307), Anish Varghese Monci (32309), Chandan Kumar (32310), S Srinivasan (32311), Akshay Arun Gangwal (32312), Narendra Singh Bisht (32313), Ajesh S (32314), Vinith Kumar V (32315), Nitin Panwar (32316), Mukesh Kumar (32317), Rohit Kumar Singh (32318), Praveen Kumar (32319), Godwin JP (32320), Anjan Brahma (32321), Ishan Gulati (32322), Disha Tiwari (32331), Aarti Deshwal (32332), Michelle Swati Michael (32333), wef 07 Jan 13

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

Fg Offr Sulabh Mahajan (32323), S Sankaran (32324), Vijay Patil (32325), Dheeraj Kumar Rathee (32327), Teja DVM (32328), Manoj M (32329), Ambar Srivastava (32330), Shruti Hans (32334), Pratima (32335), Simardeep Kaur (32336), Asmita Sahai (32337), Ketki Tol (32338), Someya Sharma (32339), Suman Sharma (32340), Preeti Sharma (32341), Apoorva Srivastava (32342), Akanksha Singh (32343), Vatsala Joshi (32344), Lalita Malik (32345), Ritika Tomar (32346), Prathama Takshak (32348), Shikha Chaudhary (32350), Shreeya Dadheech (32352), Shobhana Gupta (32353), Prerana (32354), Rajashree Hota (32355), Jeeja Abraham (32356), Apurva Prafulla Nandedkar (32357), Aishwarya Ajit Joshi (32358), Tarannum Bhutani (32359), Neha Upadhyay (32361), wef 07 Jan 13

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3 (D)

No. 186, dated 4th August 2014—The President is pleased to confirm the undermentioned officer who is granted Permanent Commission (On Probation) in Aeronautical Branch, and granted antedate wef the e date stated against the name:—

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr K M Singh (32365) AE (L) wef 02 Jul 12 and ante 02 Jul 10

ADMINISTRATIVE BRANCH

1 Fg Offr S JAYARAJ 32158 ADM

Confirmation wef 29 Dec 11

EDUCATION BRANCH

2 Fg Offr MS NANDESHWAR 32160 EDN

Confirmation wef 29 Dec 11

LOGISTICS BRANCH

3 Fg Offr RK DEY 32159 LGS

Confirmation wef 29 Dec 11

The President is pleased to confirm the undermentioned officer who is granted Permanent Commission (On Probation) wef 07 Jan 13 Aeronautical Branch, and granted ante date wef 07 Jan 11 stated below:—

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

1 Fg Offr S K Singh 32742

wef 07 Jan 13 ante date wef 07 Jan 11

The President is pleased to confirm the undermentioned officers who were granted Permanent Commission, wef the date stated against the names:—

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Varun Agrawal (32071), Ayush Kunal (32072), Shashikant Bhutani (32073), Akshay Choudhary (32074), Jashandeep Singh (32075), CP Reddy (32076), Hemant Raj (32078), Himanshu Singh (32079), Aditya Bharti (32080), Vijeet Kishan (32081), Vaibhav Passi (32082), Gopikrishnan N Menon (32083), Naveen Yadav (32084), AM Sharma (32085), Sareen Anand (32086), Sakthiprasath R (32087), Deepanker Garg (32088), Abhinav Raj (32089), Arshad Abbas (32090), R Sunil Ramakrishnan (32091), Siddharth Malik (32093), Devki Nandan Sharma (32094), Abhinav Upadhyay (32095), Ashish Kumar (32097), Nivedan Saraswat (32099), Hareen Josh (32100), Shikhar Singha (32101), Jai Rajan Nadpurohit (32102), Pradeep Soni (32103), Rajnish Rai (32104), Siddharth Mohan (32106), Prashant Kumar (32107), Shashank Singh (32108), Vikram Premal Gaupale (32109), Chandan Kumar (32110), Pushpender Badsara (32111), Shubhranshu Sharma (32112), Rajdeep Sharma (32113), Shashwat K Sanjeev Dev (32115), Anobhav Walia (32116), Abhishek Singh Deonia (32117), Vinit Singh Sikarwar (32118), Pratik Nandkumar Barhanpure (32119), Gaurav Ahlawat (32120), Siddharth Jeevan (32121), Dheeraj Siddhu (32122), Nitish Tiwari (32123), Roshan Jain (32124), Vinay Nair (32125), Barun Mahajan (32126), Sunil Kumar Rai (32127), Rohit Lal Pathania (32128), Varun Dhanda (32129), Meghachandra T (32130), Kaushik Parasuraman (32131), Gigu George (32132), Arpit Goyal (32133), Mohammad Ahzam Khan (32134), Michael Minoo Varghese (32135), Chinmoy Jyoti Bora (32136), Navdip Rana (32137), Confirmation wef 29 Dec 11.

The President is pleased to confirmed the undermentioned officers who were granted Permanent Commission and Brevets (On Probation) in flying (Navigator) Branch, wef the date stated below:—

FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Sl.No	Rank	Name	Service No	Branch
1.	Fg Offr	Prasun Kumar Singh	32077	F (N)
2	Fg Offr	Ajay Sharma	32092	F (N)
3	Fg Offr	Saurabh Kumar Shukla	32096	F (N)
4	Fg Offr	PP Reddy	32098	F (N)

Confirmation wef 29 Dec 11

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3 (D)

ARMY BRANCH

No. 187, dated 4th August 2014—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt	Jaikar Mitheel Suresh	TA-42661	(Infantry)	24 Apr 2014.
Capt	Sanjay Kumar Chauhan	TA-42663	(Infantry)	10 Apr 2014.
Capt	Rajoli Vijaya K	TA-42665	(Infantry)	17 Apr 2014.
Capt	Dalvi Kedar	TA-42666	(Infantry)	25 Apr 2014.
Capt	Vishal Swaroop	TA-42667	(Infantry)	18 Apr 2014.
Capt	Ravinder Singh Sekhon	TA-42375	(Infantry)	04 Feb 2014.

B. B. JOSHI
Under Secy

AIR FORCE

No. 188, dated 5th August 2014—The President is pleased to make the following Substantive Promotion :—

Flt Lt to be Substantive Sqd Ldr

F (N) BRANCH

ASHSIH YADAV (29728) w.e.f 16DEC 2013

TARUN KHARE
Wg Cdr
JDPO-3 (D)

ARMY BRANCH

No. 189, dated 5th August 2014—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB SUDERSHAN SINGH (JC-420852K) 02nd Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB MITTHU LAL JANGEER	(JC-422167X)	01st Apr 2014
NB SUB ARVIND KUMAR SAHU	(JC-421825M)	06th Apr 2014
NB SUB PRANAB KUMAR SENA	(JC-422168A)	01st May 2014
NB SUB RAMAVTAR	(JC-421587L)	28th Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB BAGUL PANKAJ SUBHASHRAO	(JC-421645K)	12th Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances)		

NB SUB AKHILESH CHANDRA YADAV	(JC-422096F)	13th Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB DINESH KUMAR SINGH	(JC-422032W)	02nd Jul 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Jul 2014 without effect on pay and allowances)		

To be Naib Subedar (GD)

HAV SWAMI NATH	(14919308P Now JC-422643L)	09th Apr 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 06th Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV VIKRAM SINGH	(14920119X Now JC-422644N)	24th May 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 10th Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV MANGAL CHAND GURJAR	(14922023N Now JC-422645N)	09th May 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 21st Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV GURDEEP SINGH	(14921345F Now JC-422646Y)	28th May 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st May 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV MALLA LAKSHMI VENKATARAO	(14918442N Now JC-422647F)	18th Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 10th May 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV S KANNAN	(14918922X Now JC-422648K)	01st Jun 2014
HAV JITENDRA VASHISTH	(14919326X Now JC-422649M)	02nd Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV RANJIT KUMAR SINGH	(14922030K Now JC-422650F)	02nd Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV SHIV KUMAR TEWARI	(14921476M Now JC-422651K)	01st Jun 2014
HAV TOIJAM MUHINDRO SINGH	(14921827W Now JC-422652M)	13th Jun 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV SAMAY SINGH GURJAR	(14919415W Now JC-422653P)	01st Jul 2014

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB BALKAR SINGH	(JC-420318M)	21st Apr 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01st Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
SUB PRAMOD KUMAR YADAV	(JC-420684W)	02nd May 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01st May 2014 without effect on pay and allowances)		

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB OM PRAKASH	(JC-421706W)	11th Oct 2013*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Oct 2013 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SUPENDER SINGH	(JC-421802L)	01st Nov 2013
NB SUB NARESH KUMAR RATRE	(JC-422004K)	07th Apr 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 26th Jan 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB RAKESH KUMAR VERMA	(JC-421502K)	26th Feb 2014
NB SUB PANKAJ KUMAR MAITY	(JC-421651X)	03rd May 2014*
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SURESH KUMAR	(JC-421921F)	01st Apr 2014
NB SUB TARNEKAR ASHOK TUKARAM	(JC-422005M)	01st Apr 2014
NB SUB TARLOK SINGH	(JC-422063W)	01st Apr 2014
NB SUB RAJESH KUMAR	(JC-422120M)	01st Apr 2014

NB SUB LAXMAN SINGH RAJPUROHIT	(JC-421522X)	01st May 2014
NB SUB RAM PRASHAD	(JC-421686N)	01st May 2014
NB SUB SWADESH KUMAR	(JC-421709K)	01st May 2014
NB SUB RAKESH SINGH	(JC-421934Y)	01st May 2014
NB SUB CHOKKAKULA A RAMAKRISHNA	(JC-422064Y)	01st May 2014
NB SUB SUNIL KUMAR	(JC-422065F)	01st May 2014
NB SUB BAL MUKAND	(JC-422066K)	01st May 2014

To be Naib Subedar (GD)

HAV AKHILESH KUSHVAHA	(14919309X Now JC-422629Y)	07th Apr 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV JAYDEB DINDA	(14920438K Now JC-422630N)	26th May 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV CHETAN KUMAR	(14921320P Now JC-422631W)	05th Apr 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV TEJ NARAYAN SINGH	(14922358L Now JC-422632Y)	25th Apr 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 04th Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV V RAMA MOORTHY	(14918451P Now JC-422633F)	08th May 2014*
* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 01st May 2014 without effect on pay and allowances)		
HAV GURDIP SINGH	(14919965Y Now JC-422634K)	01st May 2014
HAV ABANEESH KUMAR	(14917775N Now JC-422635M)	01st May 2014
HAV SUNIL KUMAR	(14921371H Now JC-422636P)	01st May 2014
HAV RAMESH PRASAD	(14921925W Now JC-422637X)	01st May 2014
HAV SUKHWINDER SINGH	(14919452K Now JC-422638A)	01st May 2014

To be Substantive Subedar Clerk (SD)

NB SUB CLK (SD)	SURESH NAGAR	(JC-422141H)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	KAMAL SAHA	(JC-422142L)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	PATKAL SHIVAJI VITTHAL	(JC-422143N)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	SAHANI SHIV SAHAY SHREE KRISHNAN	(JC-422144W)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	SACHCHIDA NAND YADAVA	(JC-422146F)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	MA GURUDEVAN	(JC-422147K)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	V SAI PRASAD	(JC-422148M)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	RAKESH PATHAK	(JC-422149P)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	ANUP KUMAR DE	(JC-422150K)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	DILWAR SINGH	(JC-422151M)	04 APR 2014
* (Granted seniority in the rank of substantive Subedar Clerk (SD) wef 01st Apr 2014 without effect on pay and allowances)			
NB SUB CLK (SD)	BHUPINDER SINGH DHILLON	(JC-422152P)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	KEDAR CHANDRA NAYAK	(JC-422154A)	01 APR 2014

NB SUB CLK (SD)	G RAMESH	(JC-422155H)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	BHARAT SINGH	(JC-422156L)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	VANKATESH KUMAR	(JC-422157N)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	DHOLE KRISHNAT HANAMANT	(JC-422158W)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	BHIM GARAI	(JC-422161W)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	SUKH PAL SINGH	(JC-422162Y)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	MUKUNDAN EK	(JC-422197P)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	NAGENDRA KUMAR TIWARI	(JC-422224N)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	HARI KRISHNA PANDEY	(JC-422225W)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	GAJENDRA KUMAR	(JC-422226Y)	01 APR 2014
NB SUB CLK (SD)	BALWAN SINGH	(JC-422280M)	01 MAY 2014

To be Naib Subedar Clerk (SD)

HAV CLK (SD)ENUMULA LINGAIAH	(14920974M Now JC-422607A)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)SATBIR SINGH	(14921273H Now JC-422608H)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)N SRINIVASAN	(14916940F Now JC-422609L)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)RAJ PAUL THAKUR	(14922822K Now JC-422610A)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)RAJESH KUMAR	(14922824P Now JC-422611H)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)RAJINDER KUMAR	(14922825X Now JC-422612L)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)BALBIR SINGH RATHORE	(14922826A Now JC-422613N)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)OM PRAKASH	(14922827H Now JC-422614W)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)SURAJ SINGH	(14922828L Now JC-422615Y)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)SATYA DEO YADAV	(14922863N Now JC-422616F)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)KAILASHI RAM	(14922900W Now JC-422617K)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)SATENDER SINGH	(14922930N Now JC-422618M)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)MANOJ KUMAR K	(14922959W Now JC-422619P)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)RAJENDRA PRASAD SAINI	(14922961N Now JC-422620K)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)RAJESH AV	(14918968A Now JC-422621M)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)GANNEM SRINIVASA RAO	(14919250H Now JC-422622P)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)ASHOK KUMAR JENA	(14919639W Now JC-422623X)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)RVS NARAYANA POLIMERA	(14919824K Now JC-422624A)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)VINAY SINGH	(14923911P Now JC-422625H)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)SREEJITH K	(14923927A Now JC-422626L)	01 APR 2014
HAV CLK (SD)PRAKASH CHAND BHATT	(14923928H Now JC-422627N)	01 APR 2014

HAV CLK (SD)GULAB SINGH (14923953F Now JC-422628W) 01 APR 2014

TO BE NAIB SUBEDAR CLERK (SD)

HAV CLK (SD)ASHOK KUMAR (14920210N Now JC-422641A) 04 JUN 2014

* (Granted seniority in the rank of Nb Subedar Clerk (SD) wef 03rdMay 2014 without effect on pay and allowances)

HAV CLK (SD)GANESH SINGH (14919999M Now JC-422642H) 02 JUN 2014

* (Granted seniority in the rank of Nb Subedar Clerk (SD) wef 03rdMay 2014 without effect on pay and allowances)

ARMD CORPS

To be Substantive Ris

- 1 NAIB RISALDAR DHARAMBIR (JC244820W) *08 Oct 2013
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 25 Sep 2011 without effect on pay and allowances)
- 2 NAIB RISALDAR VIRENDRA SINGH (JC244267Y) *01 Apr 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)
- 3 NAIB RISALDAR HANUMAN PRASAD (JC244508N) *12 Mar 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)
- 4 NAIB RISALDAR KRISHAN KUMAR (JC244566X) *24 Feb 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)
- 5 NAIB RISALDAR SHOKAT KHAN GAUR (JC245411P) *07 Feb 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Feb 2014 without effect on pay and allowances)
- 6 NAIB RISALDAR PRADEEP KG (JC245624H) *05 May 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 08 Feb 2014 without effect on pay and allowances)
- 7 NAIB RISALDAR SURENDER KUMAR (JC244712M) 01 Mar 2014
- 8 NAIB RISALDAR VEER PAL (JC244718N) *10 Mar 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)
- 9 NAIB RISALDAR BACHITRA SINGH (JC244919M) *03 Mar 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)
- 10 NAIB RISALDAR ISMAIL BEG (JC244970M) 01 Mar 2014
- 11 NAIB RISALDAR BASHIR KHAN (JC245412X) *08 Mar 2014
KAYAM KHAN
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Mar 2014 without effect on pay and allowances)
- 12 NAIB RISALDAR SUKHBIR (JC244037L) *05 Apr 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)
- 13 NAIB RISALDAR SUSHIL KUMAR (JC244523H) *21 May 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)
- 14 NAIB RISALDAR RAVENDRA SINGH (JC244672W) *17 May 2014
* (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)
- 15 NAIB RISALDAR DADASO PATIL (JC244761P) 01 Apr 2014
- 16 NAIB RISALDAR DAYA RAM (JC244838M) 01 Apr 2014

17	NAIB RISALDAR BHIM CHANDRA GHOSH * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)	(JC245068X)	*16 May 2014
18	NAIB RISALDAR NAVDEEP SINGH * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)	(JC245331X)	*13 Apr 2014
19	NAIB RISALDAR VIPIN K S * * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)	(JC245625L)	*05 May 2014
20	NAIB RISALDAR PAWAN SINGH * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 06 Apr 2014 without effect on pay and allowances)	(JC244038N)	*29 Apr 2014
21	NAIB RISALDAR RAMESHWAR SINGH	(JC243960W)	01 May 2014
22	NAIB RISALDAR V KUMARESAN	(JC244051X)	01 May 2014
23	NAIB RISALDAR UDAY SINGH	(JC244301N)	01 May 2014
24	NAIB RISALDAR CHINNA SAMI G	(JC244313H)	01 May 2014
25	NAIB RISALDAR RAKESH KUMAR URMALIYA	(JC244387X)	01 May 2014
26	NAIB RISALDAR ARUL ANANDHA RAJAN C * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)	(JC244656Y)	*02 May 2014
27	NAIB RISALDAR SATNAM SINGH	(JC244719W)	01 May 2014
28	NAIB RISALDAR RAVINDER	(JC244996F)	01 May 2014
29	NAIB RISALDAR ISHWAR SINGH	(JC245158Y)	01 May 2014
30	NAIB RISALDAR MUSTAK KHAN * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)	(JC245415L)	*07 May 2014
31	NAIB RISALDAR RAKESH KUMAR * (Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	(JC244060Y)	*04 Jun 2014
32	NAIB RISALDAR P PITCHAIMANI	(JC244303Y)	01 Jun 2014
33	NAIB RISALDAR P SEENIVASAGAM	(JC244437X)	01 Jun 2014
34	NAIB RISALDAR HIMANSHU MONDAL	(JC244438A)	01 Jun 2014
35	NAIB RISALDAR K CHANDRA SEKAR	(JC245114F)	01 Jun 2014
36	NAIB RISALDAR SUKHWANT SINGH	(JC245271N)	01 Jun 2014

To be Nb Ris

1	DFR (DVR/OPR) SHAMBHU THAKUR (No. 1099398W now JC246542M)	01 May 2014
2	DFR (DVR/OPR) NARINDER SINGH (No. 15462972W now JC246615N)	10 Nov 2011
3	DFR (GNR/OPR) PARMOD KUMAR * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 May 2014 without effect on pay and allowances)	*21 May 2014
4	DFR (OPR/GNR) YOGESH SINGH * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 28 Apr 2014 without effect on pay and allowances)	*15 May 2014
5	DFR (DVR/OPR) OMVEER (No. 15463251Y now JC246561X)	01 Apr 2014
6	DFR (CLKSD) RAJESH SIHAG (No. 15468862X now JC246637M)	01 Jun 2014
7	DFR (CLKSD) CHANDAN SINGH (No. 15469508P now JC246632N)	01 Jun 2014
8	DFR (CLKSD) HARBIR SINGH * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	*02 Jun 2014

9	DFR (CLKSD) MD SADRE ALAM * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15469584F now JC246638P)	*02 Jun 2014
10	DFR (DVR/GNR) PURSHOTTAM DASS SHUKLA * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15461902L now JC246603Y)	*02 Jun 2014
11	DFR (DVR/OPR) SUKHWINDER RAM	(No. 15463889L now JC246613H)	01 Jun 2014
12	DFR (DVR/OPR) JANKAR SINGH * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15465615Y now JC246616W)	* 04 Jun 2014
13	DFR (DVR/GNR) SUKHWANT SINGH	(No. 15463836M now JC246617Y)	01 Jun 2014
14	DFR (GNR/OPR) GOVIND PRASAD SHARMA	(No. 15468105H now JC246620Y)	01 Jun 2014
15	DFR (GNR/OPR) BHUP SINGH	(No. 15468349W now JC246621F)	01 Jun 2014
16	DFR (GNR/OPR) KESHVA MURTHY NJS	(No. 15465145Y now JC246626A)	01 Jun 2014
17	DFR (GNR/OPR) TASVIR SINGH * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15463974N now JC246631L)	*05 Jun 2014
18	DFR (DVR/GNR) DHARMENDRA SINGH GAUTAM * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15463140F now JC246635F)	*06 Jun 2014
19	DFR (DVR/OPR) MOHMUDEEN KHAN KAYAM KHAN * (Granted Seniority in the Rank of NB RIS wef 21 May 2014 without effect on pay and allowances)	(No. 15468993H now JC246640M)	*12 Jun 2014

RAJEEV JAUHARY
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 190, dated 6th August 2014—The President is pleased to make the following promotion :—

Sh. G Nagendra Rao to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 05 Jan 2010 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Smt. Synthia Edwards to be Stores Officer, Gp 'B' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 2 of Rs. 9,300—34,800/- (PB2) and Grade Pay of Rs. 4,600/-.

Sh. R B Adhav to be Sr. Admin Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-.

Sh. S P Tathe to be Sr. Admin Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-.

Sh. S R Shevgaonkar to be Sr. Admin Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-.

Sh. V B Khole to be Sr. Admin Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-.

Sh. M C Kurihal to be Sr. Admin Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for one year in DRDO with effect from 01 Jan 2014 (F/N) in the Pay Band 3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay Rs. 5,400/-.

The President is pleased to make the following promotions (Gp 'B') Gazetted to the undermentioned Officers for the Post and Date shown against their names:—

S. No.	Name	Post of Promotion	Estt/Lab	Date of Joining	Pay Band and Grade Pay
01.	Sh. SC Vedwal	AO	IRDE, Dehradun	01.05.13	PB-2, GP-4,600/-
02.	Sh. Harjinder Singh	AO	SASE, Chandigarh	01.01.14	PB-2, GP-4,600/-
03	Smt. K Ambika Sethumadhavan	PS	LRDE, Bangalore	09.05.14 (A/N)	PB-2, GP-4,600/-
04	Sh. A Srinivasa	PS	LRDE, Bangalore	01.06.14	PB-2, GP-4,600/-

RAJEEV RANJAN SINHA
Dy Director (Pers)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T .FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in